

जीबीयू-029/स्था0/03/2018- 810

दिनांक: 09 जनवरी 2018


सेवा में,
सिस्टम मैनेजर,
सेन्ट्रल कम्प्यूटर सेन्टर
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

विषय:अनुरक्षण विभाग में नियुक्तियाँ विषयक विज्ञापन विश्वविद्यालय की
बेवसाइड पर लोड किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के अनुरक्षण विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर नियुक्ति किए जाने विषयक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त से सम्बन्धित आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम व शर्तें, विज्ञापन इत्यादि विश्वविद्यालय की बैबसाइड पर Recruitment सैक्शन में लोड किए जाने हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं।

सधन्यवाद,


09/01/18

अनुभाग अधीक्षक
अधिष्ठान प्रकोष्ठ

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



Gautam Buddha University

Gautam Budh Nagar - 201312 (U.P.)

(Established by the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002
UP Act No. 9 of 2002, passed by the Uttar Pradesh Legislature)

Advt. No.: GBU/Admn/2018/01

Recruitment of staff (maintenance)

The University invites applications to fill up the following posts for retired officials on contractual basis from the central/U.P. State Govt. for a period of 02 year as per followings:

S.N.	Name of the post	No. of Post	Consolidated per month salary Rs.
1	Assistant Engineer (Electrical)	01	Rs. 42000/-
2	Fire/Security officer	01	Rs. 42000/-
3	Junior Engineer (Electric)	02	Rs. 32000/-
4	Junior Engineer (Civil)	01	Rs. 32000/-
5	Horticulture Inspector	01	Rs. 32000/-

For further details, conditions, application form kindly visit: www.gbu.ac.in
Interested persons may send their applications in the prescribed format to:
The Registrar, Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, U.P.- 201312 latest by 1730 hrs. 02 Feb. 2018.

Registrar

Julcan
3/1/18

(Signature)

HT (Shine Job) Delhi FPCR

Published on 9/1/2018


Ten workplace trends to watch out for in 2018

SOCIALLY CONSCIOUS Being human is the buzzword for Indian businesses as employees look for empathy, ethical practices and good old-fashioned personal interactions

Sonal Hanurkar

From the blackboard that followed the introduction of the 11th pay commission...

them primarily as efficiency enhancers... says Paul Dennis, managing director and chief executive officer at Randstad India.



Constant feedback helps establish expectations, provides an opportunity for acknowledgement of work and quick improvement

(capabilities are like a muscle which can be developed by working on an explicit variable for promotion. Employees today are self-driven to improve their knowledge and skills...

CREATING CIVIL WORK PLACES

Global, unspoken truth about sexual harassment in the workplace... says Anirudh Alex, CEO, Rain maker, a compliance training firm.

MINDING EMPLOYEE MENTAL HEALTH

One out of every two employees in corporate India has signs of depression... says Anirudh Alex, CEO, Rain maker, a compliance training firm.

NURTURING LIFE-LONG LEARNERS

Going forward, Subrahwalay believes companies will make what Stanford professor Carol Dweck calls "growth mindset"

AS PER A SURVEY...

72% of the candidates surveyed for Employee Branding Touch 2017...

DO THE RIGHT THING

It's the act of hiring top talent... says Anirudh Alex, CEO, Rain maker, a compliance training firm.

LEARNING TO LEAD VIA VIDEOCHAT

Influencers have a considerable amount of experience managing remote workforces... says Anirudh Alex, CEO, Rain maker, a compliance training firm.

STRIC TER SOCIAL MEDIA CHECKS

Recruiters have realized that the best way to gauge a job candidate is a good cultural fit for the organization to check his/her Facebook profile/Twitter feed...

THE HUMAN TOUCH

A November McKinsey Global Institute report, 'Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automated Production'...

HIRING BEYOND GENERATIONS

Generations X and Z, alpha, beta, gamma, delta and epsilon may be at times for companies to diversify their workforce...

Appointment Notice. Advt No. 12817. Recruitment of staff (maintenance) at Gautam Buddha University.

Table with 5 columns: Sl. No., Name of the post, No. of Post, Consolidated per month salary Rs., and other details for recruitment at Gautam Buddha University.

HOT JOBS. Delivery Boy. Pacific Recruitment Solutions Pvt. Ltd. Profile: Qualification - 10th Pass. Experience - Fresher Can Also apply.

SBI State Bank of India. CENTRAL RECRUITMENT & PROMOTION DEPARTMENT, CORPORATE CENTRE, MUMBAI. Recruitment of Specialist Grade Officers (Deputy Manager - Internal Audit) in State Bank of India on regular basis.

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED. RECRUITMENT RELATED NOTICE. Advt No. 103 of 2018 dated 03.01.2018.

MODERN DELHI PUBLIC SCHOOL. GREATER FARIDABAD (HARYANA). Ph: 0129-2229277, 377, 852788777, 9810031078. Applications are invited from dynamic professionals with public school background and excellent communication skills.


JOIN US | MINDBOX. Evolving Digital. JOB OPENING FOR INTERNS. MindBox is an initiative that aims to empower students with 21st century skills.

RPC INDIA. A Media House. EDITOR: 1 For Hindi News Paper (Male or Female). Computer Operator: 1 (Male or Female). Reporter: 2 (Male or Female).

विज्ञापन संख्या: GBU/Admn./2018/01 के अन्तर्गत विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित सेवा शर्तों का विवरण है:

1. अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है, वह न्यूनतम समकक्ष पद से उ०प्र०राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभाग से सेवा निवृत्त हुआ हो।
2. रख-रखाव (भवन/विकास कार्य) के कार्यों के अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. भत्ते एवं अवकाश विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होंगे।
4. समेकित वेतन के अतिरिक्त इन्हें अर्हतानुसार विश्वविद्यालय परिसर में आवास अनुमन्य होगा जिसमें आवासित होना अनिवार्य होगा। कर्मी द्वारा नियमानुसार लाईसेंस फीस तथा वास्तविक बिजली का भुगतान देय होगा।
5. अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो एवं वह भारत वर्ष का नागरिक होना चाहिए।
6. समस्त प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी के पश्चात् साक्षात्कार लिया जायेगा। अन्तिम चयन प्रार्थी की योग्यता/अनुभव/साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
7. प्रार्थी की किसी प्रकार की जाँच लम्बित नहीं होनी चाहिए। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
8. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के कार्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त पुनः प्रस्तुत किया जाना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल के चिकित्साधिकारी जो कि Dy. CMO से कम स्तर का न हो, के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
9. संविदा की अवधि तैनाती की तिथि से दो वर्ष होगी परन्तु एक वर्ष की सेवाओं को पूर्ण करने के उपरान्त सेवा अवधि के ऑकलन के पश्चात् एक वर्ष बढ़ायी जा सकती है।
10. प्रार्थी को सेवा निवृत्ति का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. वर्णित पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। मात्र अर्हतायें पूर्ण किये जाने के आधार पर आवेदक द्वारा नियुक्ति हेतु दावा नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा। नियुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

XXX


9/11/18





Gautam Buddha University
Gautam Budh Nagar- (U.P.)
Application Form for Staff (Maintenance)
On Contractual Basis

Advertisement No: GBU/Admn/2018/01

IMPORTANT :- To be filled in by the Candidate

Post Applied for :

1. Name (in Block letters) _____
2. Father's/Husband's Name _____
3. A) Date of Birth _____
B) Date of Retirement _____
4. Category (SC/ST/OBC/UR.)
(Pl. enclose certificate) _____
5. If Physically Handicapped
(Pl. enclose certificate) _____
6. Gender (Male/Female) _____
7. Marital Status _____
8. Highest Qualification _____
9. Mobile No. & E-mail ID _____
10. Postal Address _____

11. Permanent Address _____

Jankant
3/11/18

(Signature)
13

12. **Academic Qualifications Record:**

<i>S. No.</i>	<i>Exam</i>	<i>Board/ University</i>	<i>Year of Passing</i>	<i>% Marks</i>	<i>Div./Grade</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

(Please enclose self attested copies of certificates for all above mentioned academic qualifications)

13. **Experience in job and maintenance works with type & period:**

<i>S. No.</i>	<i>Name of Organization</i>	<i>Designation</i>	<i>Type of maintenance work (if any)</i>	<i>Duration</i>		<i>Achievements (if any)</i>
				<i>From</i>	<i>To</i>	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

(Please enclose all above mention certificates, if any)

14. State any other information not covered elsewhere (Please attach a sheet, if required)

DECLARATION TO BE SIGNED BY THE CANDIDATE


I hereby declare that the details given above are correct to the best of my knowledge and belief. I declare that in case an opportunity is given, I shall join Gautam Buddha University, G.B. Nagar within days. I understand that if any information provided above is found to be false or inaccurate my candidature shall be treated as cancelled.

Dated:.....

(Signature)

Place:.....

Name:.....


9/11/8

